

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 जनवरी 2025 — पौष 19, शक 1946

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जनवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-05/2010/नौ/55.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियम में, —

नियम-2 के खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“(छ) छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रं. 7 सन् 1973) की धारा-7 की उप-धारा (2) सहपठित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियम, 1956 के नियम 2 के द्वितीय परन्तुक एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (क्रं. 28 सन् 1954) की धारा 23 एवं 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए, विधि विभाग द्वारा समय-समय पर जारी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिजीत सिंह, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 9th January 2025

NOTIFICATION

No. F 21-05/2010/Nine/55.— In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Medical Attendance) Rules, 2013, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

After Clause (f) of rule 2, the following clause shall be added, namely:-

“(g) Judges of the High Court of Chhattisgarh, subject to such orders issued by the Law Department, from time to time, keeping in view the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) read with second proviso of Rule 2 of the High Court Judges Rules, 1956 and Section 23 and 24 of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (No. 28 of 1954).”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ABHIJEET SINGH, Special Secretary.